



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2209]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 2209]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

I Md ifjogu vkj jktekx l eky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

dk-vk- 2513½—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि vk/kz insk राज्य के fo'kk[kkiVue जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 674.000 कि.मी. से 681.000 कि.मी. तक के भूखण्ड ½ulrye&vkunije l D'ku½ के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् Lisky fMIVh dyDVj ¼,y-,¼ jk"Vh; jktekx&16] fo'kk[kkiVue] को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

Vud ph							
आंध्रप्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 674.000 कि.मी. से 681.000 कि.मी (रनस्तलम- आनंदपुरम खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण							
क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी में

(1)	(2 )	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.विशाखापट्टनम	1.आनंदपुरम	1. वेल्लंकि पेददीपालेम	142	निजी	शुष्क	11734
				143	निजी	शुष्क	485
Grand Total							12219

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./11013/2 नस्तलम-आनंदपुरम/एल.ए.-3/पी.आई.यू.-विजाग/2017]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2017

**S.O. 2513(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Six-lining, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 16, in the stretch of land from Km. 674.000 to Km. 681.000 (**Ranastalam - Anandapuram** Section) in the district of **Visakhapatnam** in the State of **Andhra Pradesh** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Spl. Dy. Collector (LA), NH-16, Visakhapatnam** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE							
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 674.000 to Km 681.000 (Ranastalam - Anandapuram section) of National Highway No.16 in the State of Andhra Pradesh							
Serial Number	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Sq. m
(1)	(2 )	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.Visakha-patnam	1. Anandapuram	1.Vellanki Peddipalem	142	Private	Dry	11734
				143	Private	Dry	485
Grand Total							12219

[F. No. NHAI/11013/Ranastalam–Anandapuram/L.A-3(A)/PIU-Vizag/2017]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.